



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1934 (श0)
(सं0 पटना 41) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

24 दिसम्बर 2012

सं0 22/नि0सिं0(डि0)-14-07/2006/1422—श्री श्रीप्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर अवर प्रमण्डल, नोखा अन्तर्गत सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर द्वारा बरती गई अनियमितताओं यथा— सोन बराज से निसृत पश्चिमी मुख्य नहर के 32.60 कि० मी० पर एवं पश्चिमी मुख्य नहर से निसृत गारा चौबे शाखा नहर के 1.60 कि० मी०, 4.0 कि० मी० तथा 11.20 कि० मी० पर दिनांक 24.05.2006 को उक्त चार बिन्दुओं के टूटान की जाँच तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा अंचल, पटना से कराई गई। स्थलीय जाँच में जाँच पदाधिकारी द्वारा नहरों में टूटान का मुख्य कारण जरूरत से ज्यादा जल स्राव नीचे की ओर प्रवाहित होकर जाना तथा उक्त नहर प्रणाली के गेटों की संचालन व्यवस्था में गड़बड़ी होना पाया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्राप्त निष्कर्ष के आलोक में प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित आरोपों के लिए इनसे विभागीय पत्रांक 416 दिनांक 26.04.2007 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली '2005 के नियम— 17 के तहत स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम— 19 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 560 दिनांक 24.6.2009 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री श्रीप्रकाश श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में उक्त मामले की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त अकोढ़ीगोला फॉल स्थल पर स—समय आरा ब्रांच के केनाल का गेट

खुलने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने, जयनगर फाल स्थल पर दिनांक 23.5.2006 एवं 24.5.06 को मिल रहे पानी के अनुपात में स-समय चौसा शाखा नहर एवं बक्सर शाखा नहर के गेट खोलकर समानुपातिक पानी नहीं देने, पश्चिमी मुख्य नहर के 20.00 कि० मी० के 30.00 कि० मी० के बीच बरौव माईनर को 23.5.06 एवं 24.5.06 को बन्द रखने, आरा चौबे केनाल के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में पश्चिमी मुख्य नहर से निकलने वाली वितरणीयों को दिनांक 23.05.2006 को बन्द रखने, गारा चौबे केनाल के अपस्ट्रीम में अकोढ़ीगोला एवं जयनगर में सामायिक जल वितरण में चूक के कारण गारा चौबे केनाल एवं अन्य स्थलों पर टूट एवं टूट की संरचना स-समय उपलब्ध नहीं कराने के लिए आंशिक रूप से दोषी पाते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है:-

1. " निन्दन" वर्ष 2006-07

2. असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री श्रीप्रकाश श्रीवास्तव को निन्दन वर्ष 2006-07 एवं असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड दिया जाता है।

उक्त दण्ड श्री श्रीप्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर अवर प्रमण्डल, नोखा अन्तर्गत सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मोहन पासवान,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 41-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>